

बजरंग बाण पाठ हिंदी में (पूर्ण पाठ)

॥ दोहा ॥

प्रेम प्रतीतिहि कपि भजै, सदा धरै उर ध्यान।
तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान।
जय हनुमन्त सन्त हितकारी, सुन लीजै प्रभु अरज हमारी।
जन के काज विलम्ब न कीजै, आतुर दौरि महा सुख दीजै।
जैसे कूदि सिन्धु महिपारा, सुरसा बदन पैठि विस्तारा।
आगे जाय लंकिनी रोका, मारेहु लात गई सुरलोका।
जाय विभीषन को सुख दीन्हा, सीता निरखि परमपद लीन्हा।
बाग उजारि सिन्धु महं बोरा, अति आतुर जमकातर तोरा।
अक्षय कुमार को मारि संहारा, लूम लपेट लंक को जारा।
लाह समान लंक जरि गई, जय जय धुनि सुरपुर में भई।
अब विलम्ब केहि कारन स्वामी, कृपा करहु उर अन्तर्यामी।
जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होय दुःख करहु निपाता।
जै गिरिधर जै जै सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर।
ॐ हनु हनु हनु हनुमन्त हठीले, बैरिहि मारु बज्र की कीले।
गदा बज्र लै बैरिहिं मारो, महाराज प्रभु दास उबारो।
ॐ कार हुंकार महाप्रभु धावो, बज्र गदा हनु विलम्ब न लावो।
ॐ हिं हिं हिं हनुमन्त कपीसा, ॐ हुं हुं हुं हनु अरि उर शीशा।
सत्य होहु हरि शपथ पायके, राम दूत धरु मारु जाय के।
जय जय जय हनुमन्त अगाधा, दुःख पावत जन केहि अपराधा।
पूजा जप तप नेम अचारा, नहिं जानत हों दास तुम्हारा।
वन उपवन मग गिरि गृह माहीं, तुम्हरे बल हम डरपत नाहीं।
पांय परों कर जोरि मनावों, येहि अवसर अब केहि गोहरावों।

जय अंजनि कुमार बलवन्ता, शंकर सुवन वीर हनुमन्ता।
बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक।
भूत, प्रेत, पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर।
इन्हें मारु, तोहि शपथ राम की, राखउ नाथ मरजाद नाम की।
जनकसुता हरि दास कहावो, ताकी शपथ विलम्ब न लावो।
जै जै जै धुनि होत अकासा, सुमिरत होत दुसह दुःख नाशा।
चरन शरण कर जोरि मनावौं, यहि अवसर अब केहि गोहरावौं।
उठु उठु चलु तोहि राम दुहाई, पांय परौं कर जोरि मनाई।
ॐ चं चं चं चं चपल चलंता, ॐ हनु हनु हनु हनु हनुमन्ता।
ॐ हं हं हांक देत कपि चंचल, ॐ सं सं सहमि पराने खल दल।
अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो।
यह बजरंग बाण जेहि मारै, ताहि कहो फिर कौन उबारै।
पाठ करै बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करै प्राण की।
यह बजरंग बाण जो जापै, ताते भूत-प्रेत सब कांपै।
धूप देय अरु जपै हमेशा, ताके तन नहिं रहै कलेशा।

॥ दोहा ॥

प्रेम प्रतीतिहि कपि भजै, सदा धरै उर ध्यान।
तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करै हनुमान।

<https://www.radheradheje.com/bajrang-baan-paath-hindi-english-labh-siddhi-vidhi-pdf/>

Bajrang Baan – English Translation

॥ Doha ॥

**Nishchay Prem Prateeti Te, Vinay Karain Sanmaan.
Tehi Ke Kaaraj Sakal Shubh, Siddh Karain Hanuman.**

**Jai Hanumant Sant Hitkaari, Sun Lijai Prabhu Araj Hamari.
Jan Ke Kaaj Vilamb Na Kijai, Aatur Dauri Maha Sukh Dijai.**

**Jaise Koodi Sindhu Mahipara, Surasa Badan Paithi Vistara.
Aage Jaay Lankini Roka, Maarehu Laat Gai Suraloka.**

**Jaay Vibhishan Ko Sukh Deenha, Seeta Nirakhi Parampad Leenha.
Baag Ujaari Sindhu Mahan Bora, Ati Aatur Jamkaatar Tora.**

**Akshay Kumar Ko Maari Sanhaara, Loom Lapet Lank Ko Jaara.
Lah Saman Lank Jari Gai, Jai Jai Dhuni Surpur Mein Bhai.**

**Ab Vilamb Kehi Kaaran Swami, Kripa Karahu Ur Antaryaami.
Jai Jai Lakhan Praan Ke Daata, Aatur Hoy Duhkh Karahu Nipata.**

**Jai Giridhar Jai Jai Sukh Sagar, Sur Samooh Samarath Bhatnagar.
Om Hanu Hanu Hanu Hanumant Hathile, Bairihi Maaru Bajra Ki Kele.**

**Gada Bajra Lai Bairihin Maaro, Maharaj Prabhu Daas Ubaaro.
Om Kaar Hunkaar Mahaprabhu Dhaavo, Bajra Gada Hanu Vilamb Na Laavo.**

**Om Hrim Hrim Hrim Hanumant Kapeesa, Om Hum Hum Hum Hanu Ari Ur Sheesha.
Satya Hohu Hari Shapath Paayake, Ram Doot Dharu Maar Jaay Ke.**

**Jai Jai Jai Hanumant Agaadha, Duhkh Paavat Jan Kehi Apraadha.
Pooja Jap Tap Nem Achaara, Nahin Jaanat Houn Daas Tumhaara.**

**Van Upavan Mag Giri Gruh Maahin, Tumhare Bal Ham Darpat Nahin.
Paay Paroun Kar Jori Manaavoun, Yehi Avasar Ab Kehi Gohraavoun.**

**Jai Anjani Kumar Balwanta, Shankar Suvan Veer Hanumanta.
Badan Karaal Kaal Kul Ghaalak, Ram Sahaay Sada Pratipaalak.**

**Bhoot, Pret, Pishaach Nishaachar, Agni Betaal Kaal Maari Mar.
Inhein Maaru, Tohi Shapath Ram Ki, Raakhou Naath Marjaad Naam Ki.**

**Janaksuta Hari Daas Kahaavo, Taaki Shapath Vilamb Na Laavo.
Jai Jai Jai Dhuni Hot Akaasa, Sumirat Hot Dusah Duhkh Naasha.**

**Charan Sharan Kar Jori Manaavoun, Yahi Avasar Ab Kehi Gohraavoun.
Uthu Uthu Chalu Tohi Ram Duhaai, Paay Paroun Kar Jori Manaai.**

**Om Cham Cham Cham Cham Chapal Chalanta, Om Hanu Hanu Hanu Hanu
Hanumanta.
Om Ham Ham Haank Det Kapi Chanchal, Om Sam Sam Sahami Paraane Khal Dal.**

**Apne Jan Ko Turat Ubaaro, Sumirat Hoy Anand Hamaro.
Yah Bajrang Baan Jehi Maarai, Taahi Kaho Phir Kaun Ubaarai.**

**Paath Karai Bajrang Baan Ki, Hanumat Raksha Karai Praan Ki.
Yah Bajrang Baan Jo Jaapai, Taate Bhoot-Pret Sab Kaampai.**

Dhoop Dey Aru Japai Hamesha, Taake Tan Nahin Rahai Kalesha.

॥ Doha End ॥

**Prem Prateetahi Kapi Bhajai, Sada Dharai Ur Dhyaan.
Tehi Ke Kaaraj Sakal Shubh, Siddh Karain Hanuman.**